

家庭傳播型態與 E 世代閱聽人網路素養之  
關聯性研究

A Family Communication Pattern And  
E-generation' s Internet Literacy

高于喬

Kao Yu Chiao

中國文化大學新聞研究所研究生

台北縣永和市文化路 90 巷 22 弄 12 號 2 樓

0911-095-699

[Jonever.tw@yahoo.com.tw](mailto:Jonever.tw@yahoo.com.tw)

[joneverkao@hotmail.com](mailto:joneverkao@hotmail.com)

## 家庭傳播型態與 E 世代閱聽人網路素養之關聯性研究

高于喬

### 中文摘要

本研究是以「家庭傳播型態」中的「社會取向」( 放任型與保護型 ) 與「概念取向」( 多元型與一致型 ) 所形成的家庭傳播型態，來討論不同家庭傳播型態下台北市大學生的網路使用情形及「網路素養」( 網路知識、網路技能、網路態度 ) 之異同處。針對台北市大學生共 466 位，以獨立樣本 T 檢定、單因子變異數分析、皮爾遜積差相關、相關比及多元迴歸法檢驗之。

本研究發現，愈強調高社會取向的家庭，大學生網路技能得分愈高，但網路態度得分卻愈低，愈強調高概念取向的家庭，大學生的網路技能、網路態度以及整體的網路素養得分 愈高。

除此之外，父母的教育程度高者，多採行概念取向家庭傳播型態，父母的教育程度低者，多採行社會取向家庭傳播型態。父母教育程度及使用網路的情況，會影響大學生的網路使用情況與網路素養。且在「年級」、「就讀學院」、「父母教育程度」以及「電腦資源」部分，會影響大學生的網路使用情況與網路素養。

關鍵詞：家庭傳播型態、網路素養、網路使用行為

## A Family Communication Pattern And E-generation' s Internet Literacy

### Abstract

This study used the “socio-oriented” and “concept-oriented ” Family Communication Pattern (FCP) to discuss the differences of college students’ Internet-use behavior and Internet literacy (knowledge-oriented, skill-oriented, attitude oriented) under different family communicative styles. A sample of 466 college students were analyzed statistically using T-test, One-way ANOVA, Pearson Correlation and Multiple Regression. The results showed that college students of high socio-oriented families had higher scores in the socio-oriented part but lower scores in the attitude-oriented part; college students of high concept-oriented families had higher scores in the skill-oriented part, the attitude-oriented part, and overall Internet-use literacy. Furthermore, parents with more education used more concept-oriented family communicative style while parents with less education used more socio-oriented family communicative style. Both parents’ educational background and Internet-use behavior affected college students’ Internet-use behavior and literacy. Other influential factors included grade, schools attended, parents’ educational background, and computer resource available.

Key words : Family Communication Pattern EIInternet LiteracyEIInternet-use Behavior

$E^r$	$r$						
$\alpha$	$\tilde{g}$	가	$\Delta$	가	$\alpha$	$Z\tilde{e}^v$	
$\iota$	$\hat{\alpha}$	u	$\iota\alpha$	'가	$\Delta\tilde{e}\hat{\alpha}$	$\hat{\alpha}\hat{\alpha}$	
$\alpha^v > v$	$\Delta\tilde{e}n\Delta$	س	$\tilde{e}n\Delta$	'	$\tilde{e}L\beta$	$L_m$ 가	
$\alpha^v n\Delta$	$\alpha^v n\Delta$	ا	$\tilde{e}L\beta$	$\tilde{e}L$	$\alpha^v \tilde{e}$	$\Delta\tilde{e}$	
ب	ن	ف	ب	u	$Z\tilde{e}^v$	가	$Z^r$
$\psi$	$\omega\tilde{e}'\tilde{e}$	ف	$\tilde{e}\tilde{e}$	ا	가	$\hat{\alpha}$	
$\Delta\tilde{e}$	$\alpha$	ا	$\tilde{e}\tilde{e}$	ج	$E$	가	
$\tilde{e}$	$\tilde{e}^v$	س	$\tilde{e}^v$	ا	$\tilde{e}$	$\iota\alpha$	ج
ب	س	ا	س	ا	ا	ج	
$\tilde{e}$	$\tilde{e}$	ك	$\tilde{e}$	ز			
ف	ا	ا	ف	ا	$\hat{\alpha}$	$\Delta\psi$	$\omega$
ل	ف	ا	ف	ا	$\hat{\alpha}$	ا	$\Delta$
$\tilde{e}$	ا	ا	ا	ا	ا	$Z^r$	
$\psi$	$\omega\tilde{e}$	ف	$\tilde{e}$	$\tilde{e}$	$E\tilde{e}$	$\Delta$	









Δ 塙 ~ Δ 가 가 Δ<sup>ךְ</sup> 가 가  
 γ דָקְ קְ נָדָקְ שְׁ I ψְׁ לְ יְ  
 אָדָרְ יְׁ הָעְדָהְ ψְׁ וְׁ  
 가 Z דָקְ תָּדָקְ אַיִלְתְּ  
 가 Δ<sup>ךְ</sup> Δ<sup>ךְ</sup> Δ<sup>ךְ</sup> Δ<sup>ךְ</sup> Δ<sup>ךְ</sup>  
 ε עֲדָרְ >αZ דָקְ לְ שְׁ E E Z ְׁבְּ  
 Δ<sup>ךְ</sup> סְ מְלְאָךְ Δ<sup>ךְ</sup> ψְׁ תָּדָקְ ω עֲדָרְ >αZ  
 가 Δ!  
 דָקְ Z<sup>r</sup>  
 r  
 Δ<sup>ךְ</sup> יְׁגָנְגָהְ 가 가 Δ<sup>ךְ</sup> Δ<sup>ךְ</sup> לְׁאָךְ  
 가 α<sup>ךְ</sup> עֲקָשְׁ אַיִלְתְּ  
 가 가 יְׁגָנְגָהְ אַיִלְתְּ Δ<sup>ךְ</sup> שְׁ I Ü<sup>r</sup> 가 가 α<sup>ךְ</sup> יְׁ  
 סְ E Z יְׁגָנְגָהְ Δ<sup>ךְ</sup> תָּדָקְ α<sup>ךְ</sup> עֲקָשְׁ  
 Δ 가 I Ü<sup>r</sup> α<sup>v</sup> יְׁנָנְגָהְ  
 I Ü<sup>r</sup> α<sup>ךְ</sup> שְׁ 가 : 가 יְׁ  
 Z<sup>r</sup>  
 r  
 תָּדָקְ E<sup>v</sup> יְׁגָנְגָהְ תָּדָקְ 가 α<sup>v</sup> >> V Ü<sup>r</sup> שְׁגָהְ 가  
 Z 가 ψ 가 ω Δ<sup>ךְ</sup> לְׁאָךְ Δ<sup>ךְ</sup> יְׁגָנְגָהְ E E E  
 가 אַיִלְתְּ אַיִלְתְּ I 가 ψ 가 ω Δ<sup>ךְ</sup> 가 אַיִלְתְּ  
 Z<sup>r</sup> תָּדָקְ תָּדָקְ 가 가 Δ<sup>ךְ</sup> תָּדָקְ E<sup>v</sup> תָּדָקְ 가 E<sup>v</sup> תָּדָקְ נְ  
 I<sup>ךְ</sup> 가 가 תָּדָקְ γ<sup>r</sup> 가 תָּדָקְ תָּדָקְ Δ<sup>ךְ</sup> שְׁגָהְ 가  
 가 Z<sup>r</sup> \_ Ü<sup>v</sup> >> ^α<sup>v</sup> יְׁגָנְגָהְ 가 ψ


گا زنگ ق شف ۱ ۷  
 زنگ ق ۷ ۷ گا زنگ  
 زنگ ق شف ۷ ۷

زنگ ق شف ۷ ۷ گا زنگ  
 ۷ ۷ گا زنگ  
 ۷ ۷ گا زنگ  
 ۷ ۷ گا زنگ  
 ۷ ۷ گا زنگ

زنگ ق شف ۷ ۷ گا زنگ  
 ۷ ۷ گا زنگ

۷ ۷ گا زنگ  
 ۷ ۷ گا زنگ  
 ۷ ۷ گا زنگ  
 ۷ ۷ گا زنگ  
 ۷ ۷ گا زنگ  
 ۷ ۷ گا زنگ  
 ۷ ۷ گا زنگ  
 ۷ ۷ گا زنگ  
 ۷ ۷ گا زنگ





rrrr ε Ι ف ب ت ث س ئا جا Δ γ ○ س Z  
 Δε ط ب ت جا Zr α ü ق  
 rrrr ε ψ α' ح ن ع و ئا د  
 : Δك Δث ئا ن Δ  
 Δك ~ Δγ V Δ R Δ u  
 Δ س جا Δ ن جا Δ ز Z  
 ج جا Δ ث ي ن س ن  
 Δ ن ن ε Zr ü α  
 rrrr ε ئا ج س س  
 ئا س  
 Z ن AtkinMcLeod and Chaffee 1971 و WackmanMcLeod and  
 Chaffee 1973 ε ε Δ  
 h ئا س س جا ψ ε جا h Z  
 vE ش r  
 ن جا ش جا Δ γ E  
 E ش ط ن ج Zr  
 ^E ز r  
 ن ك س ز K ع 1 ε ك γ ε ك γ ε  
 جا Δ س جا جا جا ε ش جا Z  
 ü2 ε ش K γ ε ش ε ε  
 Z ü ^α ε  
 K ئا ج جا س ش جا E ε ε Zr  
 ^E ε ج r  
 rrrr ε ج γ س ش ب ق E ئا ε ج جا جا Z r r r



^E              Kdk              가              가     Ü þ a    ^-nð      Ü  
 가        가     þ a    vññð      Ü    가        가     þ a    ññð  
 ö        Ü    가        가     þ a    v'ñz'  
 αvüüئى          .         '         r  
 가 E^þ          ئى          E              ΔññΔ    가rrrrr  
 þ        ئىا          I ^Δç    가     þ        ئى          ðZ'  
 가 E^vþ    þ          þ     h ق ق      Δññ    þ        E    þ    Δñ ق ق  
 ^zr

E^I          ئى          Δññk          ðΔ  
 þ        ö        Δ          ئىñññk          Δñ          ئى    ^ø    þ        Z'  
 ^E          .        þ ñk          Δñ    þ          h ق ق      ئىرئى      ئى    가  
 ئى        Z'rrr ئ      가          Δψ    가          ωرئى      ئى    ئى  
 ق        خ ñk    Z          Δا ئى    ئى  
 ئ        ॥        rΔç    '⊗e        Ü+⊗r ئ  
 I ^ñññ-|- ^ñññ- Δñ , ^αZñÜñññ- α  
 ئى        l    Δñ          E          Z    Δ          Δ    가          ○ Δ  
 ش        ق        Ü+⊗r ئ  
 I ^ñññ-|- ^ñññ- Δñ , ^αIñ      ئ        ئ        Δ  
 ü        ,        Δñ , >αZ'  
 rrrr ئ      Δا ئى    ~ ئ      Δñ    가          ئ        ئ        ئ        ئ        ئ  
 가 بزگ    ئ      Ü    Δñ , 'αZ    ΔñÜñññ- α    ئا بزگ    ئ      ئ  
 ق        ،        ئ      ئ      ئ      ئ  
 ئ      ئ      ئ      ئ  
 ئ      ئ      ئ      ئ  
 ئ      ئ      ئ      ئ  
 ئ      ئ      ئ  
 ئ      ئ      ئ      ئ  
 ئ      ئ      ئ  
 ئ      ئ  
 ئ      ئ      ئ  
 ئ      ئ  
 ئ      ئ  
 ئ      ئ  
 ئ      ئ



^E                  Ks      >אֵי Δ      בֵּי Δ      סֵי Δ      וֵי Δ      ○      נֵי Δ      תֵּי Δ      יֵי Δ  
 فֵי Δ      אַיְיָ Δ      וַיְיָ Δ      אֶיְיָ Δ      אֲיָיָ Δ      אָיָיָ Δ  
 גֵי Δ      בֵי Δ      אֵי Δ      גַי Δ      בַי Δ      אֲיַי Δ  
 Δ גִי      ○ הִי      שִׁי Δ      יִי Δ      זִי Δ  
 E<sup>v</sup>גִי      Ks      גִי Δ      יִי Δ      וִי Δ  
 ○      נִי Δ      תִי Δ      וְיִי Δ  
 E<sup>h</sup>      תִי Δ      Ks      תִי Δ      אַתִי Δ      אַתִי Δ      אַתִי Δ  
 תִי Δ      לְתִי Δ      שִׁתִי Δ      תִי Δ  
 שִׁתִי Δ      קִתִי Δ      יִתִי Δ      זִתִי Δ  
 אִתִי Δ      תִי Δ      יִתִי Δ      זִתִי Δ  
 가      Δאַיִתִי Δ      שִׁתִי Δ      קִתִי Δ      יִתִי Δ      זִתִי Δ  
 بַּאֲיִתִי Δ      שַׁתִּי Δ      קַתִי Δ      יַתִי Δ      זַתִי Δ  
 塙      ְאַיִתִי Δ      שְׁתִי Δ      קְתִי Δ      יְתִי Δ      זְתִי Δ  
 Z<sup>r</sup>      Z<sup>v</sup>      Z<sup>h</sup>      Z<sup>l</sup>      Z<sup>g</sup>      Z<sup>t</sup>  
 ◊ Δ      E<sup>v</sup>      t      אַיִתִי Δ      שַׁתִּי Δ      קַתִי Δ      יַתִי Δ      זַתִי Δ  
 ◊ Δ      E<sup>h</sup>      t      אִי Δ      שִׁי Δ      קִי Δ      יִי Δ      זִי Δ  
 ◊ Δ      Z<sup>r</sup>      Z<sup>v</sup>      Z<sup>h</sup>      Z<sup>l</sup>      Z<sup>g</sup>      Z<sup>t</sup>  
 ◊ Δ      E<sup>v</sup>      t      אַיִתִי Δ      שַׁתִִי Δ      קַתִי Δ      יַתִי Δ      זַתִי Δ  
 ◊ Δ      E<sup>h</sup>      t      אִי Δ      שִׁי Δ      קִי Δ      יִי Δ      זִי Δ  
 ◊ Δ      Z<sup>r</sup>      Z<sup>v</sup>      Z<sup>h</sup>      Z<sup>l</sup>      Z<sup>g</sup>      Z<sup>t</sup>  
 ◊ Δ      E<sup>v</sup>      t      אַיִתִי Δ      שַׁתִִי Δ      קַתִי Δ      יַתִי Δ      זַתִי Δ  
 ◊ Δ      E<sup>h</sup>      t      אִי Δ      שִׁי Δ      קִי Δ      יִי Δ      זִי Δ  
 ◊ Δ      Z<sup>r</sup>      Z<sup>v</sup>      Z<sup>h</sup>      Z<sup>l</sup>      Z<sup>g</sup>      Z<sup>t</sup>  
 ◊ Δ      E<sup>v</sup>      t      אַיִתִי Δ      שַׁתִִי Δ      קַתִי Δ      יַתִי Δ      זַתִי Δ  
 ◊ Δ      E<sup>h</sup>      t      אִי Δ      שִׁי Δ      קִי Δ      יִי Δ      זִי Δ  
 ◊ Δ      Z<sup>r</sup>      Z<sup>v</sup>      Z<sup>h</sup>      Z<sup>l</sup>      Z<sup>g</sup>      Z<sup>t</sup>  
 ◊ Δ      E<sup>v</sup>      t      אַיִתִי Δ      שַׁתִִי Δ      קַתִי Δ      יַתִי Δ      זַתִי Δ  
 ◊ Δ      E<sup>h</sup>      t      אִי Δ      שִׁי Δ      קִי Δ      יִי Δ      זִי Δ  
 ◊ Δ      Z<sup>r</sup>      Z<sup>v</sup>      Z<sup>h</sup>      Z<sup>l</sup>      Z<sup>g</sup>      Z<sup>t</sup>

\*Tukey      ٩       $\Delta\psi$   
 $\omega$  س ش       $\psi$        $\omega$  س Z      ٦٢      س      가  
 $\Delta$  ش  
 ج       $\Delta\chi$       ش      س  $\bar{Z}$   
 $\nabla\Delta\epsilon$       ج      ج      مگمک       $\Delta\zeta$       ج  
 ج      س      بجا      ن      ئیس  
 $\Delta$       ج      خ س      ل      بجا Z  
 $\alpha$  ش ٩      بجا  $\hat{\omega}\Delta$       بجا  
 ق      ا      جس      بجا      س      ب      ل      ٦ $\Delta$   
 \* ٩      ٩       $\Delta\chi > \Delta\psi$   
 س ش      '  $\psi$       بج > بج      بج      بج  $\omega$  بج  
 س ق  $\Delta$  س      ٩ بجا       $\Delta\zeta$  Z $\zeta$   
 ٩ ٦ $\Delta$       خ ش      س خ      ش ش  
 ج      ج      ج      ج      ج      ج       $\Delta\zeta$   
 ج      ج      ج      ج      ج      ج  
 $\Delta\chi\Delta\zeta$       مکمک       $\Delta\chi$       ش نج      ج      ٩  
 ٩      ج      بجا      بجا      بجا  $\Delta\psi$   
 ش ط      بجا      بجا      بجا      بجا بجا  
 Z خ ٦٢      بجا      بجا      بجا      بجا  
 ط      بجا      بجا      بجا      بجا  
 نج      بجا      بجا      بجا      بجا  
 ش س      بجا      بجا      بجا      بجا Z  
 $\hat{\omega}\alpha$       بجا  
 ٩ نج      بجا      بجا      بجا      بجا      بجا  
 بجا      بجا      بجا      بجا      بجا  
 بجا      بجا      بجا      بجا      بجا  
 بجا      بجا      بجا      بجا      بجا      Z  
 $\Delta$  ج      بجا      بجا      بجا  
 $\Delta$  بجا      بجا      بجا      بجا



ظا لـ     حـ     كـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ  
 ئـ     حـ     بـ     ئـ     ئـ     وـ     دـ     سـ     شـ     ئـ     زـ  
 ئـ     ئـ  
 ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ  
 ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ  
 ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ  
 ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ  
 ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ  
 ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ  
 ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ  
 ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ  
 ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ     ئـ

Chaffee, S.H., Mcleod, J M., & Wackman, D. B.(1966). *Family communication and political socialization*. Presented to Assn. For Education in Journalism, Iowa City, Iowa.

McLeod, J. M., Chaffee, S.H., & Wackman(1967). *Family Communication : And Updated Report*. Presented to Assn. For Education in Journalism,

Boulder, Colo.

McLeod, J. M. & O'Keefe Jr., G.J.(1972). The socialization perspective and communication behavior. In F.G.Kline & P.J.Tichenor (Eds.), *Current Perspectives in Mass Communication Research*. (P.121-168). NY:John Wiley & Sons, Inc.

Meadowcroft, J.M.(1986). Family communication patterns and political development the child's role. *Communication Research*, 13(4), 603-624. Tims, A.R. & Masland, J.L.(1985). Measurement of family communication patterns. *Communication Research*, 2(1), 35-57.